


  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 174] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 1979/वैशाख 1, 1901  
No. 174] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 1979/VAISKHA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1979

का. आ. 218 (अ).—भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 3 फरवरी, 1978 की अधिसूचना सं. का. आ. 63(अ) द्वारा यथाउपान्तरित सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम 8) की धारा 43-क के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पूर्वाक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों की बैठक उस उपधारा के खंड (3) में विनिर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों को सहयोजित करने के प्रयोजन के लिए 5 मई, 1979 को 11.00 बजे पूर्वाह्न, टाउन हाल अमृतसर में बुलाती है।

[सं. 5-13013/8/78-एस. आर.]

एस. शान्ति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st April, 1979

**S.O. 218(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 43-A of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925) as modified by the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 63(E), dated the 3rd February, 1978, the Central Government is pleased to call a meeting of the members of the Board, referred to in clauses (i) and (ii) of sub-section (1) of the aforesaid section on Saturday, the 5th May, 1979 at 11.00 A.M., in the Town Hall, Amritsar, for the purpose of co-opting the members of the Board, referred to in clause (iii) of that sub-section.

[No. S-13013/8/78-SR]

S. Santhi, Joint Secy.